



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 29 मार्च, 2019/8 चैत्र, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 11/2019-राज्य कर

शिमला-2, 28 मार्च, 2019

**संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-5/2019.**—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 तथा धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक संकलित

आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन ऐसे प्ररूप जीएसटीआर-1 में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुत करने हैं, अर्थात्:—

#### सारणी

क्रम संख्या	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे देने के लिए समयावधि
1	2	3
1	अप्रैल-जून, 2019	31 जुलाई, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी देने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा,  
जगदीश चन्द्र शर्मा,  
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2019 dated 28-03-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

#### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 11/2019-State Tax

Shimla-2, the 28<sup>th</sup> March, 2019

**No. EXN-F(10)-5/2019.**—In exercise of the powers conferred by section 148 and 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons, who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
1	2	3
1	April –June, 2019	31st July, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,  
JAGDISH CHANDER SHARMA,  
Principal Secretary (E&T).

### आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 12/2019—राज्य कर

शिमला-2 28 मार्च, 2019

**संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.**—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 करोड़ रूपयों से अधिक है, अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के 11 वें दिन तक हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

आदेश द्वारा,  
जगदीश चन्द्र शर्मा,  
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2019 dated 28-03-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 12/2019-State Tax

Shimla-2, the 28<sup>th</sup> March, 2019

**No. EXN-F(10)-5/2019.**—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub section (1) of section 37 read with section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2019 to June, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under subsection (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,  
JAGDISH CHANDER SHARMA,  
Principal Secretary (E&T).

### आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 13/2019—राज्य कर

शिमला—28 मार्च, 2019

**संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.**—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि अप्रैल, 2019 से जून 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

2. **प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर का संदाय:**—उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का प्रथम पैरा में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के अपश्चात् जिसको उससे उक्त विवरणी अपेक्षित है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन द्वारा अपने कर का उन्मोचन करेगा।

आदेश द्वारा,  
जगदीश चन्द्र शर्मा,  
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2019 dated 28-03-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 13/2019-State Tax

*Shimla-2, the 28<sup>th</sup> March, 2019*

**No. EXN-F(10)-5/2019.**—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from April, 2019 to June, 2019, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**—Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

By order,  
JAGDISH CHANDER SHARMA,  
Principal Secretary (E&T).

### आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 14/2019—राज्य कर

शिमला-2, 28 मार्च, 2019

**संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.**—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017—लूज द्वारा तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2017—राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा:

परन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त संकलित आवर्त निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में पचहत्तर लाख रुपए होगा, अर्थात्:—

- (i) अरुणाचल प्रदेश,
- (ii) मणिपुर
- (iii) मेघालय,

- (iv) मिजोरम,
- (v) नागालैंड,
- (vi) सिक्किम,
- (vii) त्रिपुरा,
- (viii) उत्तराखंड:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम, की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संयुक्त उदग्रहण का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका विवरण नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है:—

### सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
1	2	3
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं।
2.	2106 90 20	पान मसाला।
3.	24	सभी माल अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प।

### स्पष्टीकरण.—

- (i) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
  - (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे।
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,  
जगदीश चन्द्र शर्मा,  
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2019 dated 28-03-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

## EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 14/2019-State Tax

*Shimla-2, the 28<sup>th</sup> March, 2019*

**No. EXN-F(10)-5/2019.**—In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification No. 8/2017- State Tax, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN F(10)-14/2017-Loose, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, except as things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby specifies that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9 of the said Act, an amount of tax as prescribed under rule 7 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017:

Provided that the said aggregate turnover in the preceding financial year shall be seventy-five lakh rupees in the case of an eligible registered person, registered under section 25 of the said Act, in any of the following States, namely:—

- (i) Arunachal Pradesh
- (ii) Manipur
- (iii) Meghalaya
- (iv) Mizoram
- (v) Nagaland
- (vi) Sikkim
- (vii) Tripura
- (viii) Uttarakhand:

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

**TABLE**

Sl. No.	Tariff item, subheading, heading or Chapter	Description
1	2	3
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2.	2106 90 20	Pan masala.
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes.

*Explanation.—*

- (i) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
  - (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

By order,  
JAGDISH CHANDER SHARMA,  
Principal Secretary (E&T).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मार्च, 2019

**संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-4 / 2019-लेज.—**हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-3-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
यशवंत सिंह चोगल,  
प्रधान सचिव (विधि)।

**हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2019**

**धाराओं का क्रम**

**धारा :**

1. संक्षिप्त नाम।
2. कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन।
3. व्यावृत्तियां।  
अनुसूची।



**हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2019**

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 मार्च, 2019 को यथा अनुमोदित)

कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2019 है।

2. **कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन.**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनियोग अधिनियमों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

3. **व्यावृत्तियाँ.**—इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति,—

- (क) का निरसन किसी अन्य ऐसी अधिनियमितियों को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या
- (ख) के निरसन से पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ग) के निरसन का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा, भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न क्यों न हो; या
- (घ) के निरसन का प्रभाव संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।

**अनुसूची**

(धारा 2 देखें)

वर्ष	संक्षिप्त नाम
1	2
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1952 (1952 का 1)
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1952 (1952 का 2)
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1952 (अनुपूरक अनुदान) (1952 का 5)
1953	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1953 (1953 का 7)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



## THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACTS (REPEAL) ACT, 2019

### ARRANGEMENT OF SECTIONS

*Sections :*

1. Short title.
  2. Repeal of certain Appropriation Acts.
  3. Savings.
- THE SCHEDULE.

Act No. 5 of 2019

## THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACTS (REPEAL) ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 22<sup>ND</sup> MARCH, 2019)

AN

ACT

*to repeal certain Appropriation Acts.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows: —

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Acts (Repeal) Act, 2019.

**2. Repeal of certain Appropriation Acts.**—The Appropriation Acts specified in THE SCHEDULE are hereby repealed.

**3. Savings.**—The repeal by this Act of any enactment shall not,—

- (a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or
- (b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; or
- (c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

- (d) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

### THE SCHEDULE

(See section 2)

Year	Short title
1	2
1952	The H.P. Appropriation (Vote on Account) Act, 1952 (1 of 1952)
1952	The H.P. Appropriation Act, 1952 (2 of 1952)
1952	The H.P. Appropriation Act, 1952 (in respect of Supplementary Grants) (5 of 1952)
1953	The H.P. Appropriation Act, 1953 (7 of 1953)
1953	The H.P. Appropriation Act, 1953 (8 of 1953)
1954	The H.P. Appropriation Act, 1953 (Supplementary Grants) (1 of 1954)
1954	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1954 (3 of 1954)
1954	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1954 (4 of 1954)
1954	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1954 (13 of 1954)
1955	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1955 (4 of 1955)
1955	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1955 (5 of 1955)
1955	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1955 (9 of 1955)
1956	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1956 (8 of 1956)
1956	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1956 (4 of 1956)
1956	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1956 (5 of 1956)
1956	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1956 (14 of 1956)
1963	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1963 (1 of 1963)
1964	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1964 (3 of 1964)
1964	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1964 (5 of 1964)
1965	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1965 (1 of 1965)
1965	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1965 (3 of 1965)
1965	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1965 (2 of 1965)
1965	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1965 (4 of 1965)
1966	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1966 (1 of 1966)
1966	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1966 (2 of 1966)
1966	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1966 (3 of 1966)
1966	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1966 (9 of 1966)



---

1967	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1967 (1 of 1967)
1967	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1967 (2 of 1967)
1967	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1967 (3 of 1967)
1967	The Himachal Pradesh Appropriation (Excess Expenditure) Act, 1967 (4 of 1967)
1968	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1968 (1 of 1968)
1968	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1968 (2 of 1968)
1968	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1968 (3 of 1968)
1968	The Himachal Pradesh Appropriation (Excess Expenditure) Act, 1968 (5 of 1968)
1968	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1968 (6 of 1968)
1969	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1969 (9 of 1969)
1969	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1969 (10 of 1969)
1969	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1969 (11 of 1969)
1969	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1969 (14 of 1969)
1970	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1970 (14 of 1970)
1970	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1970 (12 of 1970)
1970	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1970 (15 of 1970)
1971	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1971 (10 of 1971)
1971	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1971 (11 of 1971)
1971	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1971 (17 of 1971)
1972	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1972 (1 of 1972)
1972	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1972 (2 of 1972)
1972	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1972 (13 of 1972)
1973	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1972 (1 of 1973)
1973	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1973 (8 of 1973)
1973	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1973 (9 of 1973)
1973	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1973 (10 of 1973)
1974	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1974 (12 of 1974)
1974	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1974 (11 of 1974)
1974	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1974 (13 of 1974)
1975	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1975 (4 of 1975)
1975	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1975 (5 of 1975)
1976	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1976 (2 of 1976)
1976	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1976 (1 of 1976)
1976	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1976 (13 of 1976)
1977	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (2 of 1977)
1977	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1977 (3 of 1977)
1977	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (6 of 1977)
1977	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (5 of 1977)

---

1977	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (4 of 1977)
1978	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (5 of 1978)
1978	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1978 (11 of 1978)
1978	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1978 (12 of 1978)
1978	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1978 (20 of 1978)
1978	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1978 (38 of 1978)
1979	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1979 (1 of 1979)
1979	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1979 (2 of 1979)
1979	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1979 (3 of 1979)
1980	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1980 (1 of 1980)
1980	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1980 (2 of 1980)
1980	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1980 (5 of 1980)
1981	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1981 (1 of 1981)
1981	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1981 (2 of 1981)
1981	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1981 (3 of 1981)
1982	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1982 (3 of 1982)
1982	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1982 (2 of 1982)
1982	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1982 (8 of 1982)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1983 (1 of 1983)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1983 (2 of 1983)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1983 (3 of 1983)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1983 (4 of 1983)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1983 (5 of 1983)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 6) Act, 1983 (6 of 1983)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 7) Act, 1983 (13 of 1983)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 8) Act, 1983 (11 of 1983)
1983	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 9) Act, 1983 (12 of 1983)
1984	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1984 (4 of 1984)
1984	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1984 (5 of 1984)
1984	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1984 (6 of 1984)
1984	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1984 (24 of 1984)
1984	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1984 (25 of 1984)
1984	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1984 (26 of 1984)
1985	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1985 (1 of 1985)
1985	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1985 (2 of 1985)
1985	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1985 (3 of 1985)
1985	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1985 (4 of 1985)
1986	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1985 (1 of 1986)

---

1986	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1986 (9 of 1986)
1986	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1986 (10 of 1986)
1986	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1986 (11 of 1986)
1986	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1986 (22 of 1986)
1987	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1987 (5 of 1987)
1987	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1987 (6 of 1987)
1987	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1987 (8 of 1987)
1987	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1987 (24 of 1987)
1987	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1987 (3 of 1988)
1988	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1988 (4 of 1988)
1988	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1988 (5 of 1988)
1988	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1988 (6 of 1988)
1988	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1988 (11 of 1988)
1989	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1988 (2 of 1989)
1989	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1989 (5 of 1989)
1989	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1989 (6 of 1989)
1989	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1989 (8 of 1989)
1989	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1989 (9 of 1989)
1990	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1989 (1 of 1990)
1990	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1990 (5 of 1990)
1990	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1990 (6 of 1990)
1990	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1990 (8 of 1990)
1991	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1991 (1 of 1991)
1991	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1991 (2 of 1991)
1991	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1991 (3 of 1991)
1992	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1992 (3 of 1992)
1992	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1992 (4 of 1992)
1992	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1992 (5 of 1992)
1992	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1992 (6 of 1992)
1994	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1994 (1 of 1994)
1994	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1994 (3 of 1994)
1995	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1995 (4 of 1995)
1995	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1995 (5 of 1995)
1996	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1996 (5 of 1996)
1996	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1996 (6 of 1996)
1996	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1996 (7 of 1996)
1996	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1996 (8 of 1996)
1997	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1997 (5 of 1997)

---

1997	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1997 (6 of 1997)
1998	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1998 (4 of 1998)
1998	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1998 (5 of 1998)
1998	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1998 (7 of 1998)
1998	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1998 (9 of 1998)
1998	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1998 (8 of 1998)
1999	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1999 (6 of 1999)
1999	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1999 (7 of 1999)
2000	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2000 (5 of 2000)
2000	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2000 (6 of 2000)
2000	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2000 (9 of 2000)
2000	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2000 (10 of 2000)
2001	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2001 (6 of 2001)
2001	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2001 (7 of 2001)
2001	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2001 (17 of 2001)
2001	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2001 (18 of 2001)
2002	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2002 (7 of 2002)
2002	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2002 (8 of 2002)
2003	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2003 (3 of 2003)
2003	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2003 (4 of 2003)
2003	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2003 (11 of 2003)
2003	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2003 (12 of 2003)
2003	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2003 (5 of 2003)
2004	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2004 (6 of 2004)
2004	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2004 (7 of 2004)
2004	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2004 (10 of 2004)
2005	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2005 (8 of 2005)
2005	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2005 (9 of 2005)
2006	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2006 (5 of 2006)
2006	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2006 (6 of 2006)
2006	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2006 (8 of 2006)
2007	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2007 (8 of 2007)
2007	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2007 (9 of 2007)
2008	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2008 (3 of 2008)
2008	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2008 (4 of 2008)
2008	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2008 (6 of 2008)
2008	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2008 (7 of 2008)
2009	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2009 (6 of 2009)
2009	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2009 (5 of 2009)

---

2010	The H.P. Appropriation (No. 3) Act, 2009 (2 of 2010)
2010	The H.P. Appropriation (No. 4) Act, 2009 (Bill No. 3 of 2010)
2010	The H.P. Appropriation Act, 2010 (7 of 2010)
2010	The H.P. Appropriation (No. 2) Act, 2010 (8 of 2010)
2010	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2010 (20 of 2010)
2010	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2010 (21 of 2010)
2011	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2011 (23 of 2011)
2011	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2011 (24 of 2011)
2011	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2011 (35 of 2011)
2012	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2012 (9 of 2012)
2012	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2012 (10 of 2012)
2013	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2013 (22 of 2013)
2013	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2013 (23 of 2013)
2013	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2013 (46 of 2013)
2014	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 1) Act, 2014 (7 of 2014)
2014	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2014 (11 of 2014)
2015	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2015 (11 of 2015)
2015	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2015 (12 of 2015)
2015	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2015 (27 of 2015)
2016	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2016 (1 of 2016)
2016	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2016 (2 of 2016)
2017	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2017 (6 of 2017)
2017	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2017 (7 of 2017)
2017	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2017 (12 of 2017)
2018	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2018 (1 of 2018)

---

## विधि विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 28 मार्च, 2019

**संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-7 / 2019-लेज.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26-3-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 3) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
यशवंत सिंह चोगल,  
प्रधान सचिव (विधि)।

**हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019****धाराओं का क्रम****धारा :**

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए ₹4,69,71,11,98,000 की राशि जारी करना ।
3. विनियोग ।
4. निरसन और व्यावृत्तियां ।  
अनुसूची ।

2019 का अधिनियम संख्यांक 6

**हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019**

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 मार्च, 2019 को यथाअनुमोदित)

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2019 को लागू होगा ।

2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए ₹4,69,71,11,98,000 की राशि जारी करना.**— हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग केवल ₹ 4,69,71,11,98,000 (छियालीस हजार नौ सौ इकहत्तर करोड़, ग्यारह लाख और अठानवे हजार रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

3. **विनियोग.**—इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा।

4. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 2) का एतद्वारा निरसन किया जाता है :



परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

- (क) किसी अन्य ऐसी अधिनियमितियों को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या
- (ख) पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ग) विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न क्यों न हो; या
- (घ) संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्यवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।

## अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹ में	सचिव निधि पर प्रभारित ₹ में	कुल ₹ में
1	2	3	4	5
1	विधान सभा (राजस्व) (पूँजीगत)	39,85,27,000 3,05,00,000	75,02,000 —	40,60,29,000 3,05,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद् (राजस्व)	14,95,43,000	7,53,53,000	22,48,96,000
3	न्याय प्रशासन (राजस्व) (पूँजीगत)	2,00,01,14,000 7,16,00,000	50,46,94,000 —	2,50,48,08,000 7,16,00,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूँजीगत)	2,19,77,68,000 2,000	10,03,20,000 —	2,29,80,88,000 2,000
5	भू-राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व) (पूँजीगत)	7,24,58,76,000 10,90,00,000	— —	7,24,58,76,000 10,90,00,000
6	आबकारी और कराधान (राजस्व) (पूँजीगत)	81,04,50,000 7,00,00,000	— —	81,04,50,000 7,00,00,000

7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	14,29,07,80,000	—	14,29,07,80,000
		(पूँजीगत)	68,33,07,000	—	68,33,07,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	66,41,11,31,000	—	66,41,11,31,000
		(पूँजीगत)	96,85,03,000	—	96,85,03,000
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(राजस्व)	21,72,35,27,000	—	21,72,35,27,000
		(पूँजीगत)	1,53,18,46,000	—	1,53,18,46,000
10	लोक निर्माण - सड़क, पुल तथा भवन	(राजस्व)	35,40,27,60,000	—	35,40,27,60,000
		(पूँजीगत)	12,92,53,03,000	2,00,00,000	12,94,53,03,000
11	कृषि	(राजस्व)	4,49,42,00,000	—	4,49,42,00,000
		(पूँजीगत)	74,64,97,000	—	74,64,97,000
12	उद्यान	(राजस्व)	3,50,92,00,000	—	3,50,92,00,000
		(पूँजीगत)	16,35,63,000	—	16,35,63,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व)	25,86,53,61,000	—	25,86,53,61,000
		(पूँजीगत)	7,09,04,61,000	—	7,09,04,61,000
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	4,06,03,15,000	—	4,06,03,15,000
		(पूँजीगत)	18,46,02,000	—	18,46,02,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	(राजस्व)	74,65,20,000	—	74,65,20,000
		(पूँजीगत)	3,03,99,00,000	—	3,03,99,00,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	5,92,47,27,000	—	5,92,47,27,000
		(पूँजीगत)	18,43,50,000	—	18,43,50,000
17	निर्वाचन	(राजस्व)	65,78,16,000	—	65,78,16,000
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व)	2,34,05,75,000	—	2,34,05,75,000
		(पूँजीगत)	46,90,00,000	—	46,90,00,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व)	10,47,75,06,000	—	10,47,75,06,000
		(पूँजीगत)	19,97,01,000	—	19,97,01,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	14,63,62,84,000	—	14,63,62,84,000
		(पूँजीगत)	20,03,00,000	—	20,03,00,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	33,52,79,000	—	33,52,79,000
		(पूँजीगत)	2,00,000	—	2,00,000
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	2,75,36,07,000	—	2,75,36,07,000
		(पूँजीगत)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
23	विद्युत विकास	(राजस्व)	5,05,71,08,000	—	5,05,71,08,000
		(पूँजीगत)	4,29,39,01,000	—	4,29,39,01,000



24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व)	29,12,80,000	—	29,12,80,000
		(पूँजीगत)	41,58,000	—	41,58,000
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	2,74,63,42,000	—	2,74,63,42,000
		(पूँजीगत)	62,27,01,000	—	62,27,01,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	69,20,36,000	—	69,20,36,000
		(पूँजीगत)	57,79,00,000	—	57,79,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	2,97,63,42,000	—	2,97,63,42,000
		(पूँजीगत)	83,78,29,000	—	83,78,29,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	(राजस्व)	5,26,12,39,000	—	5,26,12,39,000
		(पूँजीगत)	41,99,00,000	—	41,99,00,000
29	वित्त	(राजस्व)	67,74,49,49,000	45,50,00,00,000	1,13,24,49,49,000
		(पूँजीगत)	13,77,51,000	32,61,75,04,000	32,75,52,55,000
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	91,08,97,000	—	91,08,97,000
		(पूँजीगत)	41,04,04,000	—	41,04,04,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	13,60,01,92,000	—	13,60,01,92,000
		(पूँजीगत)	3,75,37,95,000	—	3,75,37,95,000
32	अनुसूचित जाति उप-योजना	(राजस्व)	14,24,40,78,000	—	14,24,40,78,000
		(पूँजीगत)	11,18,25,22,000	—	11,18,25,22,000
	जोड़..	(राजस्व)	3,39,95,63,29,000	46,18,78,69,000	3,86,14,41,98,000
		(पूँजीगत)	50,92,94,96,000	32,63,75,04,000	83,56,70,00,000
	कुल जोड़..		3,90,88,58,25,000	78,82,53,73,000	4,69,71,11,98,000

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

## THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 2) ACT, 2019

## ARRANGEMENT OF SECTIONS

## Sections :

1. Short title and commencement.
2. Issue of a sum of ₹ 4,69,71,11,98,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2019-2020.
3. Appropriation.
4. Repeal and Savings.

## THE SCHEDULE.

**THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 2) ACT, 2019**

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 26<sup>TH</sup> MARCH, 2019)

AN

ACT

*to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2019-2020.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 2) Act, 2019.

(2) It shall come into force on the first day of April, 2019.

**2. Issue of a sum of ₹4,69,71,11,98,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2019-2020.**—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of ₹ 4,69,71,11,98,000 (Rupees forty six thousand nine hundred seventy one crore, eleven lakh and ninety eight thousand) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2019-2020 in respect of the services and purposes specified in column (2) of THE SCHEDULE.

**3. Appropriation.**—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the said year.

**4. Repeal and Savings.**—The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2018 (Act No. 2 of 2018) is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not,—

- (a) affect, any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or
- (b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; or
- (c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment thereby repealed; or

- (d) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

## THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly in ₹	Charged on the Consolidated Fund in ₹	Total in ₹
1	2	3	4	5
1	Vidhan Sabha	(Revenue) 39,85,27,000 (Capital) 3,05,00,000	75,02,000 —	40,60,29,000 3,05,00,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue) 14,95,43,000	7,53,53,000	22,48,96,000
3	Administration of Justice	(Revenue) 2,00,01,14,000 (Capital) 7,16,00,000	50,46,94,000 —	2,50,48,08,000 7,16,00,000
4	General Administration	(Revenue) 2,19,77,68,000 (Capital) 2,000	10,03,20,000 —	2,29,80,88,000 2,000
5	Land Revenue and District Administration	(Revenue) 7,24,58,76,000 (Capital) 10,90,00,000	— —	7,24,58,76,000 10,90,00,000
6	Excise and Taxation	(Revenue) 81,04,50,000 (Capital) 7,00,00,000	— —	81,04,50,000 7,00,00,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue) 14,29,07,80,000 (Capital) 68,33,07,000	— —	14,29,07,80,000 68,33,07,000
8	Education	(Revenue) 66,41,11,31,000 (Capital) 96,85,03,000	— —	66,41,11,31,000 96,85,03,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue) 21,72,35,27,000 (Capital) 1,53,18,46,000	— —	21,72,35,27,000 1,53,18,46,000
10	Public Works—Roads, Bridges and Buildings	(Revenue) 35,40,27,60,000 (Capital) 12,92,53,03,000	— 2,00,00,000	35,40,27,60,000 12,94,53,03,000
11	Agriculture	(Revenue) 4,49,42,00,000 (Capital) 74,64,97,000	— —	4,49,42,00,000 74,64,97,000
12	Horticulture	(Revenue) 3,50,92,00,000 (Capital) 16,35,63,000	— —	3,50,92,00,000 16,35,63,000
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue) 25,86,53,61,000 (Capital) 7,09,04,61,000	— —	25,86,53,61,000 7,09,04,61,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue) 4,06,03,15,000 (Capital) 18,46,02,000	— —	4,06,03,15,000 18,46,02,000

15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue) (Capital)	74,65,20,000 3,03,99,00,000	— —	74,65,20,000 3,03,99,00,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue) (Capital)	5,92,47,27,000 18,43,50,000	— —	5,92,47,27,000 18,43,50,000
17	Election	(Revenue)	65,78,16,000	—	65,78,16,000
18	Industries, Minerals, Supplies & Information Technology	(Revenue) (Capital)	2,34,05,75,000 46,90,00,000	— —	2,34,05,75,000 46,90,00,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue) (Capital)	10,47,75,06,000 19,97,01,000	— —	10,47,75,06,000 19,97,01,000
20	Rural Development	(Revenue) (Capital)	14,63,62,84,000 20,03,00,000	— —	14,63,62,84,000 20,03,00,000
21	Co-operation	(Revenue) (Capital)	33,52,79,000 2,00,000	— —	33,52,79,000 2,00,000
22	Food and Civil Supplies	(Revenue) (Capital)	2,75,36,07,000 2,00,00,000	— —	2,75,36,07,000 2,00,00,000
23	Power Development	(Revenue) (Capital)	5,05,71,08,000 4,29,39,01,000	— —	5,05,71,08,000 4,29,39,01,000
24	Printing and Stationery	(Revenue) (Capital)	29,12,80,000 41,58,000	— —	29,12,80,000 41,58,000
25	Road and Water Transport	(Revenue) (Capital)	2,74,63,42,000 62,27,01,000	— —	2,74,63,42,000 62,27,01,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue) (Capital)	69,20,36,000 57,79,00,000	— —	69,20,36,000 57,79,00,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue) (Capital)	2,97,63,42,000 83,78,29,000	— —	2,97,63,42,000 83,78,29,000
28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing	(Revenue) (Capital)	5,26,12,39,000 41,99,00,000	— —	5,26,12,39,000 41,99,00,000
29	Finance	(Revenue) (Capital)	67,74,49,49,000 13,77,51,000	45,50,00,00,000 32,61,75,04,000	1,13,24,49,49,000 32,75,52,55,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue) (Capital)	91,08,97,000 41,04,04,000	— —	91,08,97,000 41,04,04,000
31	Tribal Development	(Revenue) (Capital)	13,60,01,92,000 3,75,37,95,000	— —	13,60,01,92,000 3,75,37,95,000
32	Scheduled Castes Sub-Plan	(Revenue) (Capital)	14,24,40,78,000 11,18,25,22,000	— —	14,24,40,78,000 11,18,25,22,000
<b>Total..</b>		<b>(Revenue)</b>	<b>3,39,95,63,29,000</b>	<b>46,18,78,69,000</b>	<b>3,86,14,41,98,000</b>
		<b>(Capital)</b>	<b>50,92,94,96,000</b>	<b>32,63,75,04,000</b>	<b>83,56,70,00,000</b>
<b>Grand Total..</b>			<b>3,90,88,58,25,000</b>	<b>78,82,53,73,000</b>	<b>4,69,71,11,98,000</b>

**In the Court of Deepti Mandhotra HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,  
District Chamba (H. P.)**

Shamsh Deen s/o Kasam, Village Lonu, P.O. Rajera, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 35 years (Husband).

and

Jameela d/o Sh. Sehan, Village Alisa, Pargana Panjala, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 30 years (Wife) . . Applicants.

*Versus*

1. The General Public
2. The Registrar of Marriages, Himachal Pradesh, Shimla

*Subject.—Registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.*

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as ammended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on dated 1-02-2008 at Village Alisa and they are living together as husband and wife Since then, Hence their marriage may be registered under Special marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 10-04-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on this 6th March, 2019.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA, HPAS,  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Deepti Mandhotra HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,  
District Chamba (H. P.)**

Ashok Nath s/o Shri Ramesh Nath, resident of Village Lanji, P.O. Barour, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 25 years (Husband).

and

Bindu d/o Sh. Amin Chand, Village Pudhan, P.O. Bandal, Tehsil Salooni, Distt. Chamba, H.P. aged 22 years (Wife) . . Applicants.

*Versus*

1. The General Public
2. The Registrar of Marriages, Himachal Pradesh, Shimla

*Subject.—Registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.*

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as ammended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on dated 3-10-2017 at their place of residence and they are living together as husband and wife Since then, Hence their marriage may be registered under Special marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-04-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on this 12th March, 2019.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA, HPAS,  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत श्री संजय कुमार (हि0प्र0से0)विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप—मण्डल धीरा,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. औंकार चन्द आयु 26 वर्ष पुत्र मिलाप चन्द, निवासी गांव नुनवालकड, डाकघर नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

2. राजीव कौर आयु 24 वर्ष पुत्री राजिन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर रामपुरकलां, तहसील ढेरावस्सी, जिला सासनगर, मोहाली (पंजाब) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 13-03-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा,  
उप—मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत श्री संजय कुमार (हि0प्र0से0) विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

1. विकास ठाकुर आयु 33 वर्ष पुत्र हरनाम सिंह, निवासी गांव सनवाड, डाकघर पुढवा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

2. कृतियामिका कंवल आयु 27 वर्ष पुत्री जय प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर दाडी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 7-03-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा,  
उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

